



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : ETD 08/T-13

Date : 09 August 2024

TECHNICAL COMMITTEE : High Voltage Switchgear And Controlgear, ETD 08

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the High Voltage Switchgear And Controlgear Sectional Committee, ETD 08. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : ETD 08 (25993) WC

Title of the document : High-voltage switchgear and controlgear Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies metal enclosed and solid-insulation enclosed switchgear for rated voltages above 1 kV Second Revision

Document Type : Revision of Indian Standard (IS/IEC 62271 : PART 207 : 2012)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

- 1) This document applies to – gas-insulated switchgear (GIS) assemblies • for alternating current of rated voltages above 52 kV complying with IS/IEC 62271-203, and • for direct current of rated voltages including and above 100 kV, • for indoor and outdoor installations, including their supporting structures.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 26 October 2024

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at eetd@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(ASIT KUMAR MAHARANA)
Head (Electrotechnical Department)
Email: eetd@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : ETD 08/T-13

दिनांक : 09-08-2024

तकनीकी समिति : High Voltage Switchgear And Controlgear Sectional Committee, ETD 08

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : ETD 08 (25993) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 26 October 2024

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : ASIT KUMAR MAHARANA
(Electrotechnical Department)
ई-मेल : eetd@bis.gov.in